



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 1979/माघ 3, 1900

No. 25]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 1979/MAGHA 3, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(जाय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1979

अनुसूची

सांकां० 39(अ)/आ०ब०/ईख:—केन्द्रीय सरकार, ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उसके उपखण्ड (1) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझती है, ईख की आधिकारिक न्यूनतम कीमत 10.00 रुपये प्रति किबंटल के आधार पर, जो 8.5 प्रतिशत या उससे कम वसूली से सम्बद्ध है, और जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वसूली की वृद्धि पर 11.7647 पैसा प्रति किबंटल का प्रीमियम है, इससे उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में तुरन्त प्रभावी रूप से नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यात प्राप्त प्रक्रिया वाले चीनी के कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अधिकृतियों द्वारा कारखाना द्वार पर या किसी अन्य केन्द्र पर परिदत्त ईख के लिये चीनी वर्ष 1978-79 के लिये 30 सितम्बर, 1979 तक संदेय होगा। किन्तु यह कीमत उक्त आदेश के खण्ड 3क के अधीन उसके लिये संदेय रिबेट के अधीन होगी।

क्रम सं०	कारखाने का नाम	ईख की रूपियों में प्रति किबंटल न्यूनतम कीमत
1	2	3
1.	मै० नंदगंज—सिहोरी सुगर कम्पनी लि०, पी०आ० नंदगंज, जिला गाजीपुर (उ०प्र०)	10.00
2.	श्री सियान विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, सयान, तालु० ओलपेड, जिला धरत (गुजरात)	13.41
3.	श्री तलावा तालुक सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, तलावा, जिला जूनागढ़, (गुजरात)	11.29

[सं० 3/1/78-एस०पी०वाई० (डेस्क-2)]

सी०एन० राधवन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE &amp; IRRIGATION

(Department of Food)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 1979

**G. S. R. 39(E)/Ess. Com./Sugarcane.**—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966 and having regard to various factors mentioned under sub-clause (i) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted, hereby, on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 10.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 11.7647 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, fixes, with immediate effect, the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price and shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factories specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or their agents for sugarcane delivered at the gate of their factories or at any purchasing centre for sugar year 1978-79 until the 30th September, 1979, subject to the rebate payable therefor under clause 3A of the said Order.

## SCHEDULE

Sl. No.	Name of the factory	Minimum sugarcane price in rupees per quintal
1	2	3
1.	M/s. Nandganj—Sihori Sugar Company Limited, P.O. Nandganj, District Ghazipur (U.P.)	10.00
2.	Shri Sayan Vibhag Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Sayan, Tal. Olpaid, District Surat (Gujarat)	13.41
3.	Shri Talala Taluka Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Talala, District Junagadh (Gujarat)	11.29

[No. 3/1/78-SPY(D-II)]  
C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.